



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

2 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 42 राँची, मंगलवार,

22 जनवरी, 2019 (ई०)

---

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----  
संकल्प

19 जनवरी, 2019

संख्या-5/आरोप-1-91/2016-172 (HRMS)-- श्री राजेश एक्का, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला- गुमला), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नौडीहा बाजार, पलामू के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1818, दिनांक 05 अगस्त, 2016 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध मनरेगा योजना अन्तर्गत डोभा निर्माण में लापरवाही बरतने तथा लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-7430, दिनांक 27 अगस्त, 2016 द्वारा श्री एक्का से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में पत्रांक-682, दिनांक 28 सितम्बर, 2016 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री एक्का के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-10021, दिनांक 28 नवम्बर, 2016 द्वारा उपायुक्त, पलामू से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-93/मनरेगा, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। उपायुक्त, पलामू द्वारा

मंतव्य में प्रतिवेदित किया गया कि श्री एक्का का क्षेत्रीय कर्मियों पर नियंत्रण का अभाव परिलक्षित होता है।

श्री एक्का के स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, पलामू से प्राप्त मंतव्य पर विभागीय पत्रांक-7364, दिनांक 21 जून, 2017 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गयी। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-800, दिनांक 04 अप्रैल, 2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें उपायुक्त के मंतव्य पर विभाग की सहमति संसूचित की गयी।

अतः समीक्षोपरांत श्री राजेश एक्का, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नौडीहा बाजार, पलामू को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप से मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAJESH EKKA 110013186518	श्री राजेश एक्का, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नौडीहा बाजार, पलामू को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप से मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अशोक कुमार खेतान,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।  
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

-----